



GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC020994

VALID FROM 29/08/2022 TO 28/08/2027

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Registration No.: 202207000784

Name of the Owner	MOHAMMED HARIS SIDDIQUI	Company Name	INTEGRAL UNIVERSITY
Designation पद	CHIEF PUBLIC RELATION OFFICER	कंपनी का नाम	INTEGRAL UNIVERSITY
Company Address कंपनी का पता	INTEGRAL UNIVERSITY, DASAULI, KURSI ROAD, LUCKNOW	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	Download
Address of the Applicant	Integral University, dasauli, Kursi Road, Lucknow	Application No.	LKNW0722NIF0051
Date of Submission	16/07/2022	Specimen Signature	
Location Particulars			
District	Lucknow	Block	BAKSHI KA TALAB
Plot No./Khasra No.	1416FA	Municipality/Corporation	No
ird No./Holding No.			N/A

Particular of the Existing Well and Pumping Device

Date of Construction/Sinking of the Well	10/07/2019		
Type of Well	Tube Well/Boring	Depth of the Well (In meter)	76.20
Purpose of well	Infrastructural	Assembly Size(For Tube Well)	
Strainer Position (For Tube Well)			
Type of Pump Used	Submersible	H.P. of the Pump	7.50
Operational Device	Electric Motor	Rate of Withdrawal (m ³ /hr.)	27.00
Date of Energization (In Case of Electric Pump)		10/12/2019	
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m ³ /hr.):	27.00	Maximum Allowable Running Hours Per Day:	1.00

Principal
Techno Academic Higher Secondary School
Dasauli, Bas-ha, Kursi Road
Lucknow-226129

MANAGER
TECHNO ACADEMIC H.S. SCHOOL
KURSI ROAD, LUCKNOW

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रबन्धक टेक्नो एकेडेमिक हायर सेकेंडरी स्कूल दौली इलाहाबाद रोड लखनऊ से लिए गये पानी के नमूने की जीवाणु परीक्षा का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद श्री परमेश्वर झा

क्रम- संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा समय	प्राप्त होने का दिनांक तथा आवरण (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	अनुनालिक मूत्र-पेशाब (प्रोजेक्टिव कोलाई फॉर्म काउन्ट)							संग्राह्य मूत्र-पेशाब का संख्या 100 मि० ली० मौलिक जल में (प्रोबेबिल नम्बर कोलोकार्म आर्गेनिज्म)	असंयोजित या अवशिष्ट गैरजीवाणु प्रति 10 लाख में (पी रेजीडुअल बक्तोरीन)	अन्यविवरण
				घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (कालोनी काउन्ट आन आंगर)		प्रत्येक परखनली में रखे गये जल की मात्रा	50 मि०ली०	10 मि०ली०	1 मि०ली०	0.1 मि०ली०			
				48 घण्टे में 37° सें० ग्रे० तापमान पर	72 घण्टे में कमरे के तापमान पर								
क्र. 1	12/03/2019	13/03/2019	तमरतोबिल	17	26	-	0	1	2	-	3	नहीं	तंतोबद्ध ।

निम्नलिखित को प्रेषित-

- 1-नेतृत्व प्रबन्धक टेक्नो एकेडेमिक हायर सेकेंडरी स्कूल दौली इलाहाबाद रोड लखनऊ 2
- 2-अधिकांश अभियंता मु० (जल संस्थान) लखनऊ
- 3-नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद् लखनऊ
- 4-मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ

संख्या 2819 दिनांक 25/3/2019

सिना

पीएचएचएचएच-ए०पी० 1 स्वास्थ्य-15-5-2017-(320)-10,000 प्रतिपा (क०/टी०/ऑकसेट)।

Principal
Techno Academic Higher Secondary School
Dasauli, Banaha, Kursi Road,
Lucknow-226005
MR. M. S. SINGH

S. W. Ahluwalia
MANAGER
TECHNO ACADEMIC H.S. SCHOOL
KURSI ROAD, LUCKNOW
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ
फ-अपर निदेशक